

# BE A FORCE FOR GOOD



अभी भर्ती की  
जा रही है

## पुलिस अधिकारी

एक पुलिस अधिकारी विविधतापूर्ण और चुनौती-भरी जिम्मेदारियाँ निभाता है। पुलिस जीवन और संपत्ति की रक्षा करने, अपराधियों का पता लगाने और उन्हें गिरफ्तार करने, तथा सहायता की आवश्यकता वाले लोगों की मदद करने का कार्य करती है।

आपके प्रारंभिक भर्ती प्रशिक्षण के बाद Victoria Police के साथ आपका करियर एक प्रोवेशनरी काँस्टेबल (Probationary Constable) के रूप में शुरू होता है। इस पद में आपकी पुष्टि होने से पहले आपको अपने प्रशिक्षण को सशक्त करने व और अधिक अनुभव प्राप्त करने के लिए एक सामान्य कर्तव्य पुलिस अधिकारी (General Duties Police Officer) के रूप में 2 साल बिताने होते हैं।

सामान्य कर्तव्य अधिकारी रिपोर्ट दर्ज कराने योग्य किसी भी अपराध या जनता की आवश्यकता के स्थल पर सबसे पहले उपस्थित होकर दिन में 24 घंटे, सप्ताह में 7 दिन विक्टोरिया के समुदाय को सेवा प्रदान करते हैं।

Victoria Police के अधिकाँश सदस्य एक सामान्य कर्तव्य पुलिस अधिकारी के रूप में काम करते हैं, लेकिन ऐसी कई विशेषज्ञ भूमिकाएँ भी होती हैं जिनके लिए अतिरिक्त प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। इन भूमिकाओं के लिए सामान्यतः एक पूर्व-अपेक्षित पात्रता के रूप में कम से कम 2-4 साल के सामान्य कर्तव्य परिचालन अनुभव की आवश्यकता होती है।



VICTORIA POLICE

# एक सामान्य कर्तव्य पुलिस अधिकारी क्या करता है?

एक सामान्य कर्तव्य पुलिस अधिकारी के रूप में आपको जिन परिस्थितियों का प्रबंधन करने की आवश्यकता हो सकती है, उनमें से कुछ की सूची नीचे दी गई है:

- असामाजिक व्यवहार रोकना
- समुदाय की सुरक्षा संबंधी चिंताओं का समाधान करना
- विवादों का निपटारा करना
- दुर्घटनाओं की स्थिति में उपस्थित रहना
- अपराध की जाँच करना
- यातायात कानून लागू करना
- नशीली दवाओं और शराब से प्रभावित लोगों के साथ व्यवहार करना
- महत्वपूर्ण घटनाओं और आपातस्थितियों में उपस्थित रहना

आप जिन घटनाओं के लिए उपस्थित रहेंगे/रहेंगी, उनमें से अधिकांश घटनाओं के लिए आपको दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता होगी। इसमें एक शीट चालू रखना शामिल हो सकता है, जो आपके द्वारा हरेक पारी में किए गए कार्य-कलापों की एक जारी रखी जाने वाली डायरी होती है। आपको अदालत के लिए कागज़ी कार्यवाही तैयार करना आवश्यक होगा और बाद में सबूत देने के लिए सुनवाई में भाग भी लेना होगा।

## क्या मैं एक पुलिस अधिकारी बनने के लिए पात्र हूँ?

Victoria Police के लिए एक पुलिस अधिकारी के रूप में काम करने हेतु पात्र होने के लिए आपको निम्नलिखित प्रवेश आवश्यकताओं को पूरा करना होगा:

**ऑस्ट्रेलियाई नागरिक या ऑस्ट्रेलियाई स्थायी निवासी होना**

### अच्छा चरित्र और प्रतिष्ठा प्रदर्शित करना

भर्ती प्रक्रिया के दौरान Victoria Police आवेदकों के लिए व्यापक पृष्ठभूमि जाँच करती है। Victoria Police के पिछले ऐतिहासिक दिशा-निर्देशों के बारे में और अधिक जानकारी के लिए देखें: <http://www.policecareer.vic.gov.au/police/forms-police>

नोट: यदि आप इस बात को लेकर चिंतित हैं कि पूर्व इतिहास के कारण आपका आवेदन प्रभावित हो सकता है, तो आप आवेदन करने से पहले Victoria Police की भर्ती शाखा के पास एक स्वैच्छिक प्रकटीकरण फॉर्म जमा कर सकते/सकती हैं। फॉर्म यहाँ से डाउनलोड करें:

<http://www.policecareer.vic.gov.au/police/forms-police>

### न्यूनतम चिकित्सीय आवश्यकताओं को पूरा करना

इस भूमिका को निभाने के लिए आपको Victoria Police की चिकित्सा नीति के अनुसार न्यूनतम चिकित्सा आवश्यकताओं को पूरा करना होगा। Victoria Police के चिकित्सीय दिशा-निर्देशों के बारे में और अधिक जानकारी के लिए देखें:

<http://www.policecareer.vic.gov.au/police/forms-police>

नोट: यदि आप इस बात को लेकर चिंतित हैं कि पहले से उपस्थित किसी चिकित्सीय परिस्थिति के कारण आपका आवेदन प्रभावित हो सकता है, तो आप आवेदन करने से पहले Victoria Police की चिकित्सीय सलाहकार इकाई को एक चिकित्सीय परिस्थिति की प्रारंभिक जाँच फॉर्म जमा कर सकते/सकती हैं। यहाँ से डाउनलोड करें: <http://www.policecareer.vic.gov.au/police/forms-police>

### अंग्रेज़ी में अच्छी संचार कुशलता प्रदर्शित करना

आपको एक आवेदक के रूप में जो मूलभूत कुशलताएँ प्रदर्शित करनी होंगी, उनमें से एक कुशलता अंग्रेज़ी में अच्छी तरह से संवाद करने की क्षमता है। इसका मतलब ऐसे स्तर पर अंग्रेज़ी में पढ़ने, लिखने, सुनने और मौखिक रूप से संचार करने की क्षमता होना है, जिससे कि आप एक कार्यकारी संदर्भ में इस भूमिका के कर्तव्य कुशलतापूर्वक निभा सकें।

ध्यान दें: Victoria Police विशेष रूप से द्विभाषी संचार कुशलताओं वाले आवेदकों में भी अभिरुचि रखती है, जो अपनी मूल भाषा में जनता के किसी सदस्य के साथ बात कर सकते हैं।

### यदि 21 वर्ष से कम आयु है, तो शैक्षिक योग्यता का प्रमाण उपलब्ध कराना

पुलिस की भूमिका के लिए आवेदन करने हेतु आवेदक 18 वर्ष की आयु के होने चाहिए। अगर आपकी आयु 21 वर्ष से कम है, तो आपको आवेदन करने से पहले Victorian Certificate of Education (VCE), सीनियर लेवल Victorian Certificate of Applied Learning (VCAL) या इसके समकक्ष किसी उपाधि को पूरा कर लेना होगा।

### एक विक्टोरिया ड्राइवर्स लाइसेंस धारक होना

आवेदन के समय आपके पास एक चालू ऑस्ट्रेलियाई ड्राइवर्स लाइसेंस होना चाहिए (मैनुअल या स्वचालित लाइसेंस स्वीकार्य है)।

## एक पुलिस अधिकारी बनने के लिए आवेदन करने से पहले मुझे कौन सी अन्य बातें ध्यान में रखनी चाहिए?

- Victoria Police को प्रतिदिन 24 घंटे, सप्ताह में 7 दिन विक्टोरियाई समुदाय की आवश्यकताओं का प्रत्युत्तर देने में सक्षम बनाने के लिए आप कई पारियों में प्रत्येक पखवाड़े 80 घंटे काम करेंगे/करेंगी।
- आपके कैरियर की शुरुआत में आपको Victoria Police द्वारा विक्टोरिया में किसी भी निर्धारित स्थान पर कर्तव्य निभाने की आवश्यकता हो सकती है।
- आप संघर्ष वाली परिस्थितियों, हिंसक अपराधियों और नशीली दवाओं और एल्कोहल से प्रभावित लोगों के संपर्क में आएँगे/आएँगी।
- आपसे इस बात की उम्मीद की जाएगी कि आप देश के कानूनों को बनाए रखने के लिए अपने व्यक्तिगत, धार्मिक और राजनीतिक विचारों को परे रखें।
- आपको अपने साथ एक बन्दूक रखना आवश्यक होगा।
- कार्यकाल और कार्यकाल से परे आपका आचरण उच्च स्तर का होना चाहिए और आपको Victoria Police के मूल्यों को प्रतिबिंबित करना चाहिए।
- आपको अकादमी में आरंभ करने से पहले एक प्राथमिक चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता होगी, जो अकादमी में आपके प्रशिक्षण और नौकरी के पहले साल के लिए वैध होगा।

## एक पुलिस अधिकारी के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया क्या है?

एक आवेदक के रूप में Victoria Police में काम करने के लिए चुने जाने से पहले आपको निम्नलिखित कदमों को पूर्ण करना आवश्यक होगा:

कदम 1	वेबसाइट <a href="http://www.policecareer.vic.gov.au/police">www.policecareer.vic.gov.au/police</a> के माध्यम से एक ऑनलाइन आवेदन जमा करें
कदम 2	पात्रता जाँच
कदम 3	प्रवेश परीक्षा
कदम 4	पृष्ठभूमि जाँच
कदम 5	फिटनेस परीक्षण
कदम 6	मनोवैज्ञानिक परीक्षण
कदम 7	स्वास्थ्य परीक्षण
कदम 8	व्यापक परीक्षण
कदम 9	पैनल साक्षात्कार

# एक पुलिस अधिकारी का वेतन और लाभ क्या हैं?

- अकादमी में प्रशिक्षण के पहले दिन से ही प्रतिस्पर्धात्मक आधार वेतन
- आपके आधार वेतन के ऊपर वार्षिक वेतन वृद्धियाँ और अतिरिक्त पारी भत्ते
- उदार सेवा-निवृत्ति पैकेज
- 9 सप्ताहों का वार्षिक अवकाश
- सैन्य बल अवकाश; मातृत्व/पितृत्व अवकाश; अध्ययन अवकाश; दीर्घकालीन सेवा अवकाश
- दीर्घकालीन सेवा अवकाश
- वर्दी की आपूर्ति
- अपने पूरे कैरियर की अवधि में लगातार सीखने और विकास के अवसर।

# एक पुलिस अधिकारी के रूप में मुझे क्या प्रशिक्षण मिलेगा?

Victoria Police के साथ आपके प्रारंभिक प्रशिक्षण के पहले 2 वर्षों और कार्य के पहले 12 सप्ताहों में शामिल होगा:

<b>सप्ताह 1 – 12</b>	<p>अकादमी में आपका पहला सप्ताह एक प्रेरण सप्ताह होगा, जो रंगरूटों को Victoria Police के साथ एक संगठन के रूप में परिचित कराने के लिए समर्पित होगा।</p> <p>अकादमी में प्रशिक्षण कानून, संचार कुशलता, ड्रिल, परिचालन सुरक्षा (आग्नेयास्त्रों सहित) और समुदाय से संलग्नता के साथ शुरू होगा।</p> <p>आपको सप्ताह 12 के अंत में शपथ दिलाई जाएगी, जब आप POL50115 डिप्लोमा ऑफ पुलिसिंग आरंभ करेंगे/करेंगी।</p>
<b>सप्ताह 13 – 31</b>	<p>एक पुलिस स्टेशन में कर्तव्य निभाने के अलावा अकादमी में प्रशिक्षण जारी रहता है, जिसमें सार्वजनिक आदेश प्रतिक्रिया प्रशिक्षण और पारिवारिक हिंसा की घटनाओं में भाग लेने वाली डिवीजनल वैन पर काम करना शामिल होगा।</p> <p>जैसे-जैसे आप ज्ञान, कुशलताएँ और अनुभव प्राप्त करेंगे/करेंगी, वैसे-वैसे समय के साथ आपके कार्यों में विस्तार किया जाएगा।</p>
<b>सप्ताह 32 – 52</b>	<p>आप अकादमी के बाद एक पुलिस स्टेशन पर सबसे पहले उत्तरदाता के रूप में कार्य करेंगे/करेंगी और रोड पुलिस इकाई के साथ समय बिताएँगे/बिताएँगी, जिसमें राजमार्ग गश्ती और आरपीडीएस (मार्ग पुलिस और एल्कोहल विभाग – बूज बस) शामिल होगी।</p>
<b>सप्ताह 53 – 116</b>	<p>आप अपने चालक प्रशिक्षण को पूरा करेंगे/करेंगी और आपको एक सिल्वर ड्राइवर्स लाइसेंस प्राप्त होगा।</p> <p>आपकी नियुक्ति की पुष्टि की जाएगी और आपको एक प्रशिक्षण स्टेशन पर एक सामान्य कर्तव्य पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात किया जाएगा, जिसमें कार्यपद पर पूरे किए जाने वाले काम पूरे करने होंगे।</p>

इस अवधि के अंत में, यदि आपने डिप्लोमा ऑफ पुलिसिंग की सभी आवश्यकताओं को पूरा कर लिया होगा, तो पुलिस कॉन्स्टेबल के रूप में आपकी भूमिका की पुष्टि की जाएगी और आपको अपना डिप्लोमा प्राप्त होगा।

यह प्रारंभिक प्रशिक्षण केवल शुरुआत ही है। Victoria Police के एक सदस्य के रूप में आप अपने पूरे करियर के दौरान नौकरी विशिष्ट प्रशिक्षण प्राप्त करना जारी रखेंगे/रखेंगी।

# क्या आपको और अधिक जानकारी की आवश्यकता है?

देखें: [www.policecareer.vic.gov.au/police](http://www.policecareer.vic.gov.au/police)

या अपनी पृष्ठताछ के लिए ई-मेल भेजें: [rsbmarketing@police.vic.gov.au](mailto:rsbmarketing@police.vic.gov.au)

या हमें कॉल करें (03) 9247 3212

